

**APPLICATION FORM FOR ASSISTANCE  
सहायता हेतु आवेदन प्रारूप**

(Healthcare)



APPLICATION No.: B/0524/0465  
आवेदन संख्या :

NAME of APPLICANT : अर्पणा कौर बर्मा Thirumangal

FATHER'S SPOUSE'S NAME : निला/नवाज बीज राम  
W/o Nanegowda.

PRESENT RESIDENCE ADDRESS: अपार्टमेंट अवासीन स्थल  
208 - KOPPA Hobali maddes t. Numbi nayaka

na Halli mandya karnataka  
PERMANENT RESIDENCE ADDRESS : ಸ್ವಾಮೀ ಜಾಗತಿಕ ಪಠಾ

Digitized by srujanika@gmail.com

**OCCUPATION**

flame makes

~~MARRIED~~ (मिहित) / UNMARRIED (अमिहित)

**TOTAL ANNUAL INCOME**

卷之三

(Attach Proof of Income)

Digitized by srujanika@gmail.com

**ARE YOU AN INCOME TAX ASSESSEE? (Tick whichever is applicable):**

Yes / No ✓  
Yes / नहीं

**FAMILY DETAILS**

**BASIS for REQUESTING ASSISTANCE (Tick whichever is applicable)**

BPL Card (Attach Card Copy)	EWS Certificate (Attach Certificate Copy)	Ration Card (Attach Copy)	Any Other Basis/Proof
गरीबी रोज़ के लिये प्रवास पत्र (प्रवास पत्र को जापा जूते संतान लें।)	आवास वाले त्रुपत्ति पत्र (प्रवास पत्र को जापा जूते संतान लें।)	दस्तावेजी कार्ड (प्रवास पत्र की जापा जूते संतान लें।)	अन्य कोई साक्ष

**"PURPOSE" for REQUESTING ASSISTANCE:**

साहाय्य करे तु फिरे गये दिनती का उदाहरण-

Sl. No. क्रमांक	Medical Reports/Prescriptions Attached अस्पताल/टॉक्सिटा से आई ही गई प्रतिवेदन मुख्य संलग्न
①	<p style="text-align: center;"><u>DIAGNOSIS</u></p> <p style="text-align: right;">RC cut crack KC cut crack</p> <p style="text-align: center;"><u>Emergency :- RC cut + KC cut</u></p>

**ASSISTANCE BEING AVALIED for SAME "PURPOSE" from OTHER SOURCES**

Sr. No.	NAME of OTHER SOURCE अन्य स्रोत का नाम	AMOUNT of ASSISTANCE BEING AVAILED ली गई सहायता की राशि
(ii)	DBCS	0000/-

**DECLARATION by APPLICANT:** આપણું દ્વારા ઘેરાતી નથી.

- I hereby confirm that all details in this Form are True to the best of my knowledge. Any false statement will render my Application & ongoing assistance, if any, liable for rejection/cancellation.
  - I solemnly confirm that assistance, if received from Koshika Foundation, will be used only for the "purpose", as stated in this Form, for which such assistance was requested by me.
  - I hereby confirm that I have not & will not in future, avail of reimbursement, in part or in full, from any other source/employer/insurance company, of the amount for which this assistance is requested.

1) मैं घोषणा करता हूँ कि इस प्राप्ति में दिये गए सभी विवरण सभी जानकारी के अनुसार मात्र एवं सही है। यदि कोई विवरण एवं कारण असम्भव पाया जाता है तो मेरी सहायता निवाल की जा सकती है।

2) मोहामाद जहान राहीं "कोशिका साहाय्यकरण", से सही जा सकती है, उसके उपर्योग उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया जाएगा, जो इस प्राप्ति में घोषित है।

3) मैं पूर्णतया हंसु यह सम्भव की गई हूँ, उस सम्भावना का अधीक्षण या सहायता किसी भूल संबंधितोंका/ईमेल बदलनी से न तो लिया है और न ही खोलिया मैं देंगा।

**AGREEMENT by APPLICANT (申請者 同意)**

- 1) By affixing my signature or thumb impression on this Form, I (Applicant) hereby agree & authorise Koshika Foundation and it's Trustees to use/publish/put-up/reproduce my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, through any medium, including but not limited to verbal, print, electronic, for soliciting donations for Koshika Foundation and/or disseminating information about it's activities/achievements. Such use of my photo & details can be made by Koshika Foundation before or after my treatment or fulfillment of the "purpose" for which assistance is being requested.

2) I (Applicant) further agree that any such use of my name, address, photo & details of the "purpose", for which such assistance is requested/granted, will not automatically entitle me for receiving or continuing the said assistance. The decision for granting and/or continuing the assistance will rest solely with the Trustees of Koshika Foundation, and their decision in this regard will be final and acceptable to me.

1.) इस प्रत पर अपने हस्ताक्षर या अंगठे की छाप लगाकर, मैं (आवेदक) अपनी महानी की पुष्ट करता हूं एवं "कोशिका फार्मासील सौ. उसके ज्ञानों" को अधिकृत करता हूं कि मेरा नाम, पता, छोटे और जो विवरण इस प्रत में दीया है, उमेर "कोशिका" एवं नामी, उमेर, जन्मदिन आदि उद्देश्य में जुड़ी जीवितभिंगों और उपलब्धिभिंगों के लिये किसी भी प्रकार माध्यम से उत्तीर्ण करने के लिये अधिकृत है। मेरे प्रत पर विवरण में इनके के पहले पा कर मे करने के लिये "कोशिका फार्मासील" व न्यासी अधिकृत है।

2.) मैं (आवेदक) इस बात मे महमत हूं कि मेरा नाम, पता, छोटे और विवरण को कि महानी के उद्देश्यों से जुड़ा है या नहीं स्वतः महानी कर होकरा नहीं जलता। इस मान्यते मे "जीवित" या "उपलब्धि" जीवित जीवितों का लिये अधिकृत और जागरूकी होगा।

APPLICANT'S SIGNATURE OR LEFT THUMB IMPRESSION:

प्रतीक के राजा ने अपने पांच



AGREEMENT by HOSPITAL (संक्षिप्त दस्तावेज़)

By affixing hereunder, signature of our Authorised Signatory for recommending this case/patient for financial assistance from Koshika Foundation, we  
hereby declare that the information given above is correct & accurate.

- (Hospital) hereby affirm & accept following:

1) that we neither are presently nor will in future avail of financial assistance from another NGO or any other source, for the same patient/case, as we are requesting to get from Koshika Foundation, to the extent that such assistance is granted by Koshika Foundation. If the requested assistance is not granted by Koshika Foundation, in part or in full, then the Hospital reserves it's right to make up the shortfall from another NGO or any other source. This confirmation essentially states that the Hospital will not avail any duplicate assistance for the same patient/case from any other NGO or any other source.

2) The assistance from Koshika Foundation is only financial in nature. The choice of the treatment/procedure advised/conducted by the Hospital on the patient, is based on the arrangement between the patient & the Hospital, and is in no way influenced by Koshika Foundation. Hence, the Hospital will assume sole & complete responsibility of the treatment & it's outcome & safety of the patient, and Koshika Foundation will have no role or responsibility

इस पर विचार करते हैं। इसका अर्थ है कि यह विविध समाजों में विविध विवरणों की जाति है, जिसे हम (हमसभा) निम्न उचाव से बाया व स्वीकार करते हैं।

इनपर अधिकृत, हमसभा की ओर से समर्पित ग्रन्थ को “कांशिका वाचनदेशन” से विविध विवरण हेतु विवरण की जाति है, जिसे हम (हमसभा) निम्न उचाव से बाया व स्वीकार करते हैं।

यह कि यह विविध समाज और न ही सम्बन्ध में विविध विवरण किसी भी साक्षाती संस्थान का विविध जन्म स्वरूप से उपका एवं उपर्युक्त से लेंगे या ले रहे हैं, जैसे कि हमने “कांशिका वाचनदेशन” से विविधता/विविध उचाव के सम्बन्ध में “कांशिका वाचनदेशन” द्वारा वरद हेतु किया जाता है तो अपनात्म किसी अन्य या विवाही संस्थान का विविध अन्य विवरण से समावृत्त स्वरूप का अधिकार सुनिश्चित रखता है। इस पृष्ठ में स्पष्ट करा जाता है कि अपनात्म विविध वरद उचाव एवं उपर्युक्त से हेतु किसी भी साक्षाती संस्थान का विविध जन्म स्वरूप से नहीं लेना चाहिए।

- 1) यह कि न हो सर्वाधिक और न हो अधिक में वित्तीय सहायता किसी गैर साकारी संस्थान या विशेष जन्म स्तर से उक्त एवं/या उसमें में लेंगे जा सकते हैं, जैसे कि हमने "कांसिका फादरनेशन" में वित्तीय सहायता किसी गैर साकारी संस्थान के लिए दिया गया है, जैसे कि हमने "कांसिका फादरनेशन" द्वारा सहायता किसी गैर साकारी संस्थान हेतु मन्दूर नहीं किया जाता है तो सर्वाधिक किसी अद्य ये गैर साकारी संस्थान या किसी अन्य सम्पादन से सहायता लेने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। इस पृष्ठ में स्पष्ट कहा जाता है कि असंबोधित द्वितीय बदल उक्त एवं/या उसमें हेतु किसी गैर साकारी संस्था या किसी अन्य सम्पादन में नहीं लेना चाही।
  2. "कांसिका फादरनेशन" में ऐसी एक सहायता की विधि प्रकृति की है। ऐसी एक सहायता द्वारा ये गई सहायता या किसी नवे डफाफार/प्रक्रिया का उत्तर देने एवं हस्ताना के द्वारा का विषय है और "कांसिका फादरनेशन" द्वारा किसी प्रकार का चोरी इच्छा नहीं है। इसीलिये हस्ताना में लेंगे के इताव सूक्ष्म और बड़े जैसे की घटनाएँ होने एवं हस्ताना की होती हैं और "कांसिका" को खोई भौमिका या जिम्मेदारी इस सालों में नहीं होती।

**RECOMMENDED FOR ACCEPTANCE**

स्वीकृति के लिए संमर्पित

Ar-Lakshminarayana

#### Manager Outreach

www.silverspoonfordiabetes.com

Institute for Diseases of the Eye  
A unit of Shrikrishna Eye Care Trust

**THURSDAY, NOVEMBER 11, 1998**

on behalf of hospital

काम के लिए विद्युत अधिकृत अधिकारी

Date of Surgery अंतिम दिन की तारीख	<b>Dr. Laxmi Dorennavar</b> <b>MBBS, MS, FPRS, FICO</b> <b>Consultant - Phaco &amp; Refractive</b> KMC No. 90244	Manager Outreach Institute for Diabetes & Eye Care (Aut. of Shradhanjali Eye Care Trust) (Name, Designation & Stamp of Authorized Signatory # 16/M, Thirumalai Road, Near TSPB, Beliaghata On Behalf of Hospital) नम. के नं. हस्पतल अधिकृत अधिकारी
92/5/24		

KMC No. 9024  
FOR INTERNAL USE of KOSHISHA FOUNDATION

## अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से

SIGNATURE of TRUSTEE 1

वाची विद्या ।

**SIGNATURE of TRUSTEE 2**

नवाची विजया ३

Safary

Eric